

13 मार्च 2023

कमोडिटी मार्केट रिपोर्ट





प्रमुख खबरें

- भारत का रत्न और आभूषण निर्यात फरवरी महीने में 24 प्रतिशत बढ़कर 28,833 करोड़ रुपये हो गया, जो पिछले साल की समान अवधि में 23,327 करोड़ रुपये था: रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद।
- सरकारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने एक साल पहले की तुलना में अप्रैल से फरवरी तक 52% कम या 5.9 मिलियन टन तैयार स्टील का निर्यात किया, क्योंकि वैश्विक मांग में कमी आई है।
- भारत से इस वर्ष वस्तुओं और सेवाओं का संयुक्त निर्यात करीब 750 अरब डॉलर का होगा: मुख्य आर्थिक सलाहकार।
- भारत 2030 तक दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन बाजार होगा: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो।
- सरकार ने विमानन टरबाइन ईंधन के निर्यात पर कर को 1.5 रुपये प्रति लीटर से घटाकर

शून्य कर दिया है और डीजल पर निर्यात कर 2.5 रुपये से घटाकर 0.5 रुपये प्रति लीटर कर दिया है।

- एफएसएसएआई ने अधिकारियों को आयातित दालों और खाद्य तेल की खेपों की निकासी में देरी नहीं करने का निर्देश दिया।
- यूएसडीए ने मकई के अंतिम स्टॉक को बढ़ा दिया है और सोयाबीन के स्टॉक को कम किया है। मकई का अंतिम स्टॉक 1.342 बिलियन बुशल रह सकता है जो फरवरी से 75 मिलियन बुशल अधिक है। सोयाबीन का अंतिम स्टॉक 210 मिलियन बुशल होने का अनुमान है, जो संभावित रूप से सात वर्षों में सबसे कम है।
- सरकार ने 2023-24 के लिए 34.15 मिलियन टन गेहूं खरीद का लक्ष्य तय किया है।
- चिली के केंद्रीय बैंक ने कहा कि दुनिया के शीर्ष तांबा उत्पादक चिली का फरवरी में तांबे का निर्यात 3.45 अरब डॉलर तक पहुंच गया है।

NCDEX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.03.23	09.03.23	बदलाव (%)
ग्वारसीड	5544.00	5754.00	3.79%
ग्वारगम	11687.00	12129.00	3.78%
कैस्टरसीड	6356.00	6420.00	1.01%
स्टील	49320.00	49750.00	0.87%
धनिया	6942.00	6990.00	0.69%

MCX में सबसे अधिक बढ़ने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.03.23	09.03.23	बदलाव (%)
मेंथा ऑयल	1050.50	1051.10	0.06%

NCDEX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.03.23	09.03.23	बदलाव (%)
जौ	2372.00	2319.00	-2.23%
धान	4515.00	4435.00	-1.77%
कॉटनऑयलसीडकेक	2602.00	2566.00	-1.38%
कपास	1615.50	1599.00	-1.02%
हल्दी	6970.00	6906.00	-0.92%

MCX में सबसे अधिक गिरने वाली कमोडिटी

कमोडिटी	03.03.23	09.03.23	बदलाव (%)
नेचुरल गैस	255.50	223.20	-12.64%
कच्चा तेल	6532.00	6318.00	-3.28%
निकल	2140.00	2097.50	-1.99%
एल्युमीनियम	211.10	207.25	-1.8%
सोना गिनी	44680.00	44288.00	-0.9%

साप्ताहिक समीक्षा

सीआरबी इंडेक्स नरमी के रुझान के साथ एक दायरे में रहा है क्योंकि डॉलर इंडेक्स में बढ़ोतरी के कारण कमोडिटी की कीमतों में गिरावट हुई है। फेड चेंबर ऑफ़ ट्रेड ने बुधवार को ब्याज दरों में अधिक और संभावित रूप से तेज बढ़ोतरी के अपने संदेश की फिर से पुष्टि की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि दो सप्ताह में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति बैठक से पहले जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर निर्णय के साथ बहस अभी भी चल रही है। सोने की कीमतों में तेज गिरावट देखी गई लेकिन चांदी की कीमतों में नरमी बनी रही और पिछले हफ्ते 20 डॉलर से नीचे आ गई। नेचुरल गैस वायदा की कीमतों दो सप्ताह की तेजी के बाद उच्च स्तर पर कायम नहीं रह सकी। कच्चे तेल की कीमतें चार महीने से एक दायरे में कारोबार कर रही हैं और रोजिस्ट्रेस का सामना नहीं कर सकी और इस सप्ताह 77 डॉलर के करीब बंद हुई। चीन की ओर से मध्यम मांग के संकेतों के कारण कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव था और अमेरिकी ब्याज दरों में बढ़ोतरी संकेतों ने इस वर्ष कच्चे तेल की खपत के लिए अधिक विपरीत परिस्थितियों को लेकर चिंता बढ़ा दी। अमेरिका और पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन (ओपेक) के बीच संभावित रस्साकसी के कारण भी तेल की कीमतें काफी कम दायरे में रही। अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेंबरमैन की आक्रामक टिप्पणियों से शीर्ष उपभोक्ता चीन में मांग में सुधार की भरपायी होने से औद्योगिक धातुओं की कीमतों में गुरुवार को गिरावट हुई। तांबे की कीमतों ने लगातार तीन सप्ताह तक दर्ज मजबूती को गवां दिया। लेड की कीमतें अपने पिछले सप्ताह के बढ़त को बरकरार नहीं रख सकी और एल्युमीनियम और जिंक की कीमतों में भी यही कहानी रही।

कृषि कमोडिटीज में, कटाई गतिविधियों में प्रगति के साथ आपूर्ति में सुधार के कारण अरंडी की कीमतों में सीमित गिरावट देखी गई। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू स्टॉक में बढ़ोतरी हो रही है। चीन में आर्थिक गतिविधियों में मंदी के कारण जनवरी-दिसंबर 22 के दौरान कैस्टर ऑयल का निर्यात 16% घटकर 581.75 हजार टन रह गया। आक्रामक निर्यात पूछताछ के अभाव में कॉटनऑयलसीडकेक और कपास दोनों की कीमतें गिरावट के साथ बंद हुईं। ग्वारसीड और ग्वारगम की कीमतों में गिरावट पर रोक लग गई। मसालों की कीमतें एक दायरे में रही लेकिन कुल मिलाकर रुझान नरमी का था। तेलंगाना के साथ-साथ महाराष्ट्र में दैनिक आवक बढ़ने लगी है, जिससे हल्दी की कीमतों में गिरावट आएगी। जौ की कीमतों पर मामूली दबाव था क्योंकि वर्ष 2023 में कुल उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 28% बढ़कर 384 हजार टन होने का अनुमान है। मेंथा ऑयल की कीमतें एक दायरे में रही। उत्तरप्रदेश में बुवाई शुरू हो गई है और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण पिछले साल की तुलना में बुवाई कम है। भारत के उत्तरी भाग में सामान्य से अधिक तापमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आगामी सीजन के लिए आपूर्ति की बेहतर संभावनाओं से धनिया की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। गुजरात में प्रतिदिन लगभग 2-2.25 लाख बैग की आवक हो रही है और इसके आगे भी बढ़ने की उम्मीद है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढ़ती आपूर्ति के साथ थोक खरीद से परहेज कर रहे हैं।



हाजिर कीमतें

कमोडिटी	स्थान	03.03.23	09.03.23	(%)
जौ	जयपुर	2350.00	2300.00	-2.13%
चना	दिल्ली	5149.80	5171.80	0.43%
धनिया	कोटा	6700.00	6845.85	2.18%
क्रूड पॉम ऑयल	कांडला	902.60	902.25	-0.04%
गुड़	मुजफ्फरपुर	1189.10	1187.05	-0.17%
ग्वारसीड	जोधपुर	5623.35	5607.05	-0.29%
ग्वारगम	जोधपुर	11913.80	11,974.35	0.51%
जीरा	ऊंझा	30728.90	30762.40	0.11%
सरसों	जयपुर	5706.20	5725.15	0.33%
रिफाइंड सोया तेल	मुंबई	1137.50	1120.00	-1.54%
सोयाबीन	इंदौर	5651.85	5507.95	-2.55%
हल्दी	निजामाबाद	6984.85	6989.80	0.07%
गेहूं	दिल्ली	2406.40	2400.00	-0.27%
काँटन	कड़ी	29879.10	29879.10	0.00%
काँटनऑयलसीडकेक	अकोला	2736.95	2678.35	-2.14%

LME/ COMEX/ NYMEX में धातुओं की कीमत (डॉलर में)

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	03.03.23	09.03.23	बदलाव(%)
एल्युमीनियम	LME	नकद	2405.00	2328.00	-3.20%
तांबा	LME	नकद	8983.50	8853.00	-1.45%
लेड	LME	नकद	2119.50	2084.00	-1.67%
निकल	LME	नकद	24597.00	23269.00	-5.40%
जिंक	LME	नकद	3077.50	2974.00	-3.36%
सोना	COMEX	अप्रैल	1854.60	1834.60	-1.08%
चांदी	COMEX	मई	21.24	20.17	-5.04%
लाइट क्रूड	NYMEX	अप्रैल	79.68	75.72	-4.97%
नेचुरल गैस	NYMEX	अप्रैल	3.01	2.54	-15.61%

अंतरराष्ट्रीय बाजार में कमोडिटी की कीमतें

कमोडिटी	एक्सचेंज	कॉन्ट्रैक्ट	03.03.23	09.03.23	बदलाव (%)
सोयाबीन	CBOT	मई	15.18	15.10	-0.53%
सोया तेल	CBOT	मई	61.19	57.06	-6.75%
काँटन	ICE	मई	84.37	82.30	-2.45%
सीपीओ	BMD	मई	4,352.00	4,205.00	-3.38%

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (NCDEX)

कमोडिटी	यूनिट	02.03.23 क्वांटिटी	09.03.23 क्वांटिटी	अंतर
बाजरा	मी.टन	20	20	0
कैस्टर सीड	मी.टन	0	0	0
चना	मी.टन	10606	8611	-1995
धनिया	मी.टन	0	0	0
काँटनऑयलसीडकेक	मी.टन	6295	7457	1162
ग्वारगम	मी.टन	15079	15083	4
ग्वारसीड	मी.टन	23152	23392	240
जीरा	मी.टन	657	1474	817
मक्का	मी.टन	0	0	0
सोयाबीन	मी.टन	0	0	0
हल्दी	मी.टन	0	0	0

गोदाम में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति (MCX)

कमोडिटी	यूनिट	03.03.23 क्वांटिटी	09.03.23 क्वांटिटी	अंतर
एल्युमीनियम	मी.टन	3084	1938	-1146
तांबा	मी.टन	898039	813771	-84268
सोना	किग्रा	318	318	0
सोना मिनी	किग्रा	13448	13448	0
सोना गिनी	किग्रा	13044	52300	39256
लेड	किग्रा	1118	342	-775
चांदी (30 किग्रा बार)	किग्रा	150817	118720	-32097
चांदी एम	किग्रा	40910	40910	0
जिंक	मी.टन	2894	2237	-657

LME में सप्ताहिक स्टॉक स्थिति(टन में)

कमोडिटी	स्टॉक की स्थिति 03.03.23	स्टॉक की स्थिति 09.03.23	अंतर
एल्युमीनियम	546825	554300	7475.00
तांबा	64225	73350	9125.00
निकल	43884	43722	-162.00
लेड	25075	24775	-300.00
जिंक	35750	39075	3325.00



ट्रेंड शीट

एक्सचेंज	कमोडिटी	कॉन्ट्रैक्ट	बंद* भाव	ट्रेंड बदलाव की तिथि	ट्रेंड	भाव के ट्रेंड में बदलाव	सपोर्ट	रेजिस्टेंस	क्लोजिंग स्टॉप लास
NCDEX	जीरा	अप्रैल	30650.00	25.01.23	मंदी	31485.00	-	32560.00	32600.00
NCDEX	हल्दी	अप्रैल	6906.00	25.01.23	मंदी	7744.00	-	7250.00	7300.00
NCDEX	ग्वारसीड	अप्रैल	5809.00	07.02.23	मंदी	6000.00	-	5920.00	5950.00
NCDEX	कैस्टरसीड	अप्रैल	6424.00	12.12.22	मंदी	7500.00	-	6570.00	6600.00
NCDEX	स्टील लांग	मार्च	49750.00	30.01.23	मंदी	50000.00	-	50060.00	50100.00
NCDEX	कॉटनऑयलसीडकेक	अप्रैल	2589.00	30.01.23	मंदी	2890.00	-	2780.00	2800.00
MCX	मेंथा ऑयल	मार्च	1040.30	23.02.23	तेजी	1030.00	1020.00	-	1015.00
MCX	बुलडेक्स	मार्च	14853.00	15.02.23	मंदी	15300.00	-	15170.00	15200.00
MCX	चांदी	मई	61984.00	14.02.23	मंदी	66000.00	-	66250.00	66300.00
MCX	सोना	अप्रैल	55301.00	14.02.23	मंदी	56500.00	-	56050.00	56100.00
MCX	मेटलडेक्स	मार्च	17647.00	23.06.22	साइडवेज	17500.00	17000.00	18500.00	-
MCX	तांबा	मार्च	753.95	15.02.23	मंदी	770.00	-	777.00	780.00
MCX	लेड	मार्च	182.35	15.02.23	मंदी	184.00	-	189.00	190.00
MCX	जिंक	मार्च	263.00	15.02.23	मंदी	275.00	-	274.00	275.00
MCX	एल्युमिनियम	मार्च	205.30	15.02.23	मंदी	212.00	-	211.00	212.00
MCX	कच्चा तेल	मार्च	6277.00	30.01.23	मंदी	6400.00	-	6470.00	6500.00
MCX	नेचुरल गैस	मार्च	209.20	06.03.23	मंदी	230.00	-	246.00	250.00

*09/03/2023 का बंद भाव

नोट: 1. कभी-कभी आप पाओगे कि स्टॉप लॉस बहुत अधिक है लेकिन यदि हम स्टॉप लॉस को एक बार बदल दें तो हमें कमोडिटी में पड़बूती आती दिखेगी। इस स्थिति में स्टॉप लॉस अधिक होगा क्योंकि हम सप्ताहिक आधार पर प्राक को देखते हैं और लम्बे समय तक के रुझानों को लेते हैं।
2. इस सप्ताहिक ट्रेंड का मिलान योजना को ट्रेंड से नहीं किया जाना चाहिए, जिसे प्रतिदिन सुबह को मार्निंग रिपोर्ट के नाम से ई-मेल किया जाता है।

टेक्निकल सुझाव

तांबा (मार्च) एमसीएक्स



तांबा (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 788.30

निचला स्तर: 742.50

एमसीएक्स में तांबा (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 09 मार्च 2023 को 753.95 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 754.96 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 42.765 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

768.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 730.00 ₹ के टारगेट के लिए 756.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स



ग्वारसीड (अप्रैल) एनसीडीईएक्स

उच्च स्तर: 6106.00

निचला स्तर: 5553.00

एनसीडीईएक्स में ग्वारसीड (अप्रैल) कॉन्ट्रैक्ट 09 मार्च 2023 को 5809.00 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 5872.49 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 45.045 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

6050.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 5400.00 ₹ के टारगेट के लिए 5820.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।

लेड (मार्च) एमसीएक्स



लेड (मार्च) एमसीएक्स

उच्च स्तर: 190.10

निचला स्तर: 181.20

एमसीएक्स में लेड (मार्च) कॉन्ट्रैक्ट 09 मार्च 2023 को 182.35 ₹ पर बंद हुआ। वर्तमान समय में 18 दिनों को एक्सपोनेंसियल मूविंग औसत 184.90 है। दैनिक चार्ट में कमोडिटी की रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स की वैल्यू 40.156 है। दोनों ही इंडिकेटर बिकवाली का संकेत दे रहे हैं।

188.00 ₹ के स्टॉपलॉस के साथ 178.00 ₹ के टारगेट के लिए 185.00 ₹ के नजदीक बिकवाली की जा सकती है।



अगले सप्ताह में बाजार का रुख

मसाले

प्रमुख व्यापारिक केंद्रों पर आवक बढ़ने के कारण हल्दी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में मामूली गिरावट होने की संभावना है। बेंचमार्क निजामाबाद बाजार में आवक की गति तेज हो गई है और प्रतिदिन लगभग 22000-26000 बैग की आवक हो रही है। इसी तरह, सांगली, सेलम, इरोड में भी आवक में सुधार हुआ है, जिससे कीमतों पर दबाव पड़ेगा। लेकिन मार्च 23 में प्रमुख मंडियों में कुल आवक लगभग वर्ष-दर-वर्ष 60% कम रही है। पिछले वर्ष के 43 हजार टन की तुलना में 1-10 मार्च के दौरान लगभग 17 हजार टन की आवक हुई। स्थानीय मसाला मिलों की ओर से मांग कमजोर रही है, जिससे निजामाबाद में प्रीमियम गुणवत्ता वाली हल्दी की निर्यात मांग में सुधार हो रहा है, जिससे कीमतों में बड़ी गिरावट पर रोक लगेगी। हल्दी की कीमतों में 6600 के सपोर्ट स्तर तक गिरावट होने की संभावना है और निकट अवधि में 7460 पर रोजिस्ट्रेस रहने की संभावना है।

आपूर्ति की स्थिति में वृद्धि के कारण जीरा (मार्च) वायदा की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। गुजरात के उझा बाजार में नयी आवक बढ़ी है और राजस्थान में भी बढ़ने की संभावना है। रोजाना करीब 55000-60000 बैग की आवक हो रही है। राजस्थान में उत्पादकता अच्छी रही है जिससे राजस्थान में उत्पादन में काफी वृद्धि होगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन स्पाइसेस स्ट्रेकहोल्डर के अनुसार वर्ष 2023 में कुल उत्पादन वर्ष-दर-वर्ष 28% बढ़कर 384 हजार टन होने का अनुमान है। लेकिन, नुकसान सीमित होने की संभावना है क्योंकि कीमतों को 29000 के पास मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और कीमतों के इस स्तर के करीब आने पर खरीदारी दिखाई दे रही है। जीरा की कीमतें 29000-34000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

राजस्थान में आपूर्ति में सुधार के कारण धनिया वायदा (अप्रैल) की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ कारोबार करने की संभावना है। धनिया का कुल उत्पादन 18%-20% अधिक होने का अनुमान है जिससे मार्च-अप्रैल में आवक में तेज वृद्धि हो सकती है। मांग में कमी आई है क्योंकि प्रमुख खरीदार और मसाला मिलें प्रमुख मंडियों में नई आवक की बढ़ती आपूर्ति की संभावना से थोक खरीद से परहेज कर रही हैं। लेकिन फसल के लिए मौसम का जोखिम है क्योंकि राजस्थान में मार्च में सामान्य से अधिक तापमान से फसल जल्दी पक जाएगी, जिससे उत्पादकता और कटाई गतिविधियां प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगी। धनिया की कीमतों के 6500-7400 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

अन्य कमोडिटीज

सुस्त औद्योगिक और निर्यात मांग के कारण कॉटन/कपास की कीमतों के नरमी के रूझान के साथ साइडवेज कारोबार करने की संभावना है। इस वर्ष भारत में कपास का उत्पादन लगभग 321 लाख गांठ (प्रत्येक 170 किग्रा) होने की उम्मीद है, लेकिन कम अंतरराष्ट्रीय मांग और भारतीय कपास की उच्च कीमतों के कारण इस वर्ष कपास का निर्यात पिछले साल के 45 लाख गांठ की तुलना में केवल 30 लाख गांठ हो सकता है। पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादन में वृद्धि के बावजूद निर्यात ऐतिहासिक निम्न स्तर पर पहुंच जाएगा। अक्टूबर 2022 से फरवरी 2023 तक, भारत का कपास निर्यात केवल लगभग 8 लाख गांठ हुआ है, जो हाल के वर्षों में सबसे कम है। कपास के अधिक उत्पादन अनुमान और किसानों के पास भारी स्टॉक से कीमतों में अधिक गिरावट होने की संभावना है। एनसीडीईएक्स पर कपास (अप्रैल) की कीमतों के 1570-1660 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है। एमसीएक्स पर कॉटन की कीमतें 62000-65000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

वैकल्पिक भोजन की बढ़ती उपलब्धता के कारण कॉटनऑयलसीडकेके (अप्रैल) वायदा की कीमतों में गिरावट की संभावना है। लेकिन, कपास की आवक में कमी के कारण आपूर्ति अभी भी कम है। कपास की सीमित निर्यात मांग के कारण वर्ष 2022-23 में कपास के बीज के उत्पादन पर बुरी तरह से प्रभाव पड़ा है। भारत के उत्तरी भाग में गर्म हवाओं के कारण हरे चारे की उपलब्धता बुरी तरह प्रभावित हुई है जिसके कारण पशु आहार उद्योग में मांग में वृद्धि हुई है। कॉटनऑयलसीडकेके की कीमतें 2400-2800 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

स्थानीय बाजार में सीमित खरीददारी के कारण ग्वारसीड (अप्रैल) वायदा की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है। कीमतों में अधिक गिरावट की आशंका से आवक बढ़ने की उम्मीद है। ग्वारम की कमजोर मांग के कारण निर्यातकों की ओर से मांग में कमी आई है। ग्वारम की निर्यात मांग मार्च में सीमित रहने की संभावना है जो प्रमुख खरीदारों को ग्वार की थोक खरीद से दूर रखेगी। ग्वारसीड की कीमतों में 5300 पर सपोर्ट बना रहेगा और निकट भविष्य में 6000 पर रोजिस्ट्रेस बना रहेगा। इसी तरह ग्वारम की कीमतों के 11200-13000 के दायरे में कारोबार करने की संभावना है।

आगामी सीजन में कमजोर उत्पादन अनुमान के कारण मंथा ऑयल वायदा (मार्च) की कीमतों में तेजी रहने की संभावना है। यूपी में बुवाई शुरू हो गई है और मौसम की प्रतिकूल स्थिति के कारण पिछले साल की तुलना में बुवाई कम हुई है। भारत के उत्तरी भाग में सामान्य से अधिक तापमान से बुवाई गतिविधियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। आवक की ऑफ सीजन अवधि के कारण आपूर्ति कम हो गई है। कीमतें 1020 के सपोर्ट के साथ ऊपर की ओर रिकवरी कर सकती हैं और निकट अवधि में 1070 के स्तर पर रोजिस्ट्रेस रह सकता है।

बाजार में पर्याप्त आपूर्ति के कारण अरंडी वायदा (अप्रैल) की कीमतों में गिरावट की संभावना है। दैनिक आवक में वृद्धि हुई है, जबकि अरंडी के तेल के सुस्त निर्यात के कारण पेराई की मांग अभी भी कम है। अरंडी तेल कारोबारियों के लिए सुस्त निर्यात मांग अभी भी एक बड़ी चिंता है क्योंकि निर्यात में गिरावट के साथ घरेलू भंडार में बढ़ोतरी हो रही है। अरंडी के तेल का निर्यात जनवरी-दिसंबर 22 के दौरान साल-दर-साल 16% घटकर 581.75 हजार टन रह गया है। आने वाले समय में अरंडी की कीमतें 6100-6900 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं।

सर्फा

फेडरल रिजर्व के अध्यक्ष जेरोम पॉवेल द्वारा दरों में अधिक बढ़ोतरी के संकेत देने के बाद डॉलर के मजबूत होने से गैर-यूरोप वाली संपत्ति की मांग के कम होने के कारण सोने की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। डॉलर कई-महीने के उच्च स्तर के पास कारोबार कर रहा है, जिससे विदेशी खरीदारों के लिए सोना अधिक महंगा हो गया है। फेड चेरमैन पॉवेल ने ब्याज दरों में उच्च और संभावित तेज बढ़ोतरी के अपने संदेश की फिर से पुष्टि की, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि दो सप्ताह में अमेरिकी केंद्रीय बैंक की नीति बैठक से पहले जारी किए जाने वाले आंकड़ों पर निर्णय के साथ बहस अभी भी चल रही है। पॉवेल की टिप्पणियों के बाद सोना लगभग 2% लुढ़क गया। एफओएमसी द्वारा दर वृद्धि के आकार और अंत दोनों पर अनिश्चितता पैदा किए जाने के कारण मार्च में सोने की कीमतें दबाव में रह सकती हैं और 1,800 डॉलर तक नीचे जा सकती हैं। बेंचमार्क अमेरिकी 10-वर्षीय ट्रेजरी यूरोलड में मजबूती दर्ज की गई और बुलियन में रुचि सीमित हुई। जब दर में वृद्धि की उम्मीदें बढ़ती हैं तो सोने की मांग कम हो जाती है क्योंकि ऊंची दरें गैर-यूरोलड देने वाले बुलियन को रखने की अवसर लागत को बढ़ा देती हैं। बाजार जुलाई में दर के 5.475% के उच्च स्तर पर पहुंचने का अनुमान लगा रहे हैं। लेकिन साप्ताहिक अमेरिकी बेरोजगार दावों में अपेक्षा से अधिक वृद्धि के बाद कमजोर श्रम बाजार के कारण फेडरल रिजर्व द्वारा दरों में कम आक्रामक बढ़ोतरी की संभावना बढ़ सकती है। कॉमेक्स पर सोने की कीमतें 1800-1860 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। चांदी की कीमतें नरमी के रूझान के साथ कारोबार करना जारी रख सकती हैं और 18.00-20.90 डॉलर के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इस सप्ताह एमसीएक्स पर सोने की कीमतें व्यापक दायरे में कारोबार कर सकती हैं और दोनों तरफ की हलचल देखी जा सकती है और कीमतें 54200-56500 के दायरे में कारोबार कर सकती हैं। इसके विपरीत, चांदी नरमी के रूझान के साथ कारोबार कर सकती है और 59000-65500 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

एनर्जी कॉम्प्लेक्स

मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए अमेरिकी फेडरल रिजर्व अपनी ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़ोतरी की चिंता के कारण कच्चे तेल की कीमतों में पूरे सप्ताह बिकवाली देखी गई। ब्याज दरों में लंबे समय तक बढ़ोतरी मंदी का कारण बन सकता है और भविष्य में तेल की मांग को कम कर सकता है। अमेरिकी केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को कम करने के लिए उच्च ब्याज दरों का उपयोग करता है। लेकिन उन उच्च दरों से उपभोक्ताओं की उधारी लागत बढ़ जाती है, जो अर्थव्यवस्था को धीमा कर सकती है। बेरोजगारी लाभ के लिए नए दावे दाखिल करने वाले अमेरिकियों की संख्या में पिछले सप्ताह पांच महीनों में सबसे अधिक वृद्धि हुई, लेकिन लेकिन यह बढ़ोतरी कमजोर श्रम बाजार के अनुरूप रही। चीन से कमजोर आर्थिक संकेतों ने भी तेल बाजारों को परेशान किया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातक ने जनवरी-फरवरी की अवधि में तेल आयात में गिरावट दर्ज की। जबकि चीन ने फरवरी के बाद से व्यापार गतिविधि में बेहतर रिकवरी देखी है लेकिन यह अभी तक कच्चे तेल और अन्य वस्तुओं के आयात को बढ़ती मांग में परिवर्तित नहीं हुआ है। इस बीच, द्विदलीय अमेरिकी सीनेटरों के एक समूह ने कहा कि उन्होंने उत्पादन में कटौती रोकने के लिए ओपेक पर दबाव बनाने के लिए कानून को फिर से पेश किया है। अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनफ्रान ग्राहोम ने यह भी कहा कि अमेरिकी सामरिक पेट्रोिलियम रिजर्व से आगे कोई भी रिलीज यूक्रेन में युद्ध जैसे व्यवधानों के कारण होगी। इस सप्ताह में कीमतों पर बिकवाली का दबाव बना रहेगा, जहां कीमतों को 5700 के स्तर पर सपोर्ट और 6400 के स्तर पर रोजिस्ट्रेस रह सकता है। नवीनतम ईआईए रिपोर्ट के बाद अमेरिकी नेचुरल गैस वायदा 2.6 डॉलर/एमएमबीटीयू से नीचे कारोबार कर रहा है, जिसमें दिखाया गया था कि पिछले सप्ताह भंडारण से गैस निकासी साल के मौजूदा समय में सामान्य से कम रही है क्योंकि हल्के मौसम ने हीटिंग की मांग कम रही। इस सप्ताह गैस की कीमतें 180-225 के व्यापक दायरे में कारोबार करना जारी रख सकती हैं।



बेस मेटल

बेस मेटल की कीमतें नरमी के रुझान के साथ कारोबार कर सकती हैं क्योंकि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दर में लगातार बढ़ोतरी के डर से निवेशकों का सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। अत्यधिक उच्च मुद्रास्फीति से लड़ने के उद्देश्य से ब्याज दरों में आगामी बढ़ोतरी ने आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक धातुओं की वैश्विक मांग को लेकर चिंता बढ़ा दी है। शीर्ष धातु उपभोक्ता चीन में सुस्त मांग भी प्रमुख चिंता का विषय है। लेकिन, कई निवेशक मध्यम और लंबी अवधि में औद्योगिक धातुओं की संभावनाओं के बारे में उत्साहित रहते हैं, और जब कीमतें निश्चित स्तर तक गिरती हैं तो वे खरीदारी करते हैं। तांबे की कीमतें 720-760 के दायरे में कारोबार कर सकती है। प्रमुख तांबा उत्पादक देशों में आपूर्ति बाधित होने से कीमतों पर दबाव पड़ सकता है। पनामा की सरकार और कनाडा के फर्स्ट क्वांटम मिनरल्स ने कोबरे पनामा खदान को संचालित करने के लिए एक अनुबंध के लिए सहमति व्यक्त की है, और पनामा के अधिकारियों ने कंपनी को लोडिंग कार्यों को फिर से शुरू करने की अनुमति दी है। पेरू और इंडोनेशिया में भी व्यवधान कम हो गया है। शंघाई मेटल्स मार्केट के अनुसार, दुनिया के शीर्ष तांबा स्मेल्टर चीन ने फरवरी में 907,800 टन रिफाईंड तांबे का उत्पादन किया, जो सालाना 6.5% अधिक और 900,000 टन के अनुमान से थोड़ा अधिक है, और मार्च में उत्पादन 949,500 टन तक पहुंचने की उम्मीद है। जिंक की कीमतें 245-270 के दायरे में कारोबार कर सकती है। लोड की कीमतें 178-187 के दायरे में कारोबार कर सकती है। एल्यूमीनियम की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 195-210 के दायरे में कारोबार कर सकती है क्योंकि युन्नान स्मेल्टरों द्वारा बिजली की राशनिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने के लिए आवश्यक उत्पादन कटौती को संतुष्ट करने के बाद चीन से आपूर्ति में सुधार हुआ है। यूरो क्षेत्र में मोटर वाहन उत्पादन स्तर में सुधार के बावजूद, एल्यूमीनियम की मांग अभी तक नहीं बढ़ी है, और शेष स्टॉक के बीच धातु की आवश्यकताएं अभी भी कम हो गई हैं। एनसीडीईएक्स पर स्टील लॉन्ग (मार्च) की कीमतें नरमी के रुझान के साथ 48000-50000 के दायरे में कारोबार कर सकती है।

नेचुरल गैस.....एमसीएक्स पर मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट

कृषि एवं किसान कल्याण मस्वच्छ और प्रतिस्पर्धी ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत के रूप में नेचुरल गैस का महत्व बढ़ता जा रहा है जिसका उपयोग हीटिंग, क्लिंग, बिजली उत्पादन, अपरिहार्य सामग्री (जैसे स्टील और कंक्रीट) और अन्य चीजों को बनाने के लिए किया जाता है। यह कई औद्योगिक प्रक्रियाओं को भी ईंधन देता है जो काच से लेकर कपड़ों तक की सामग्री और सामान का उत्पादन करते हैं, और यह पेंट और प्लास्टिक जैसे उत्पादों में एक महत्वपूर्ण घटक है। फिजिकल बाजारों के अलावा यह एक्सचेंज प्लेटफॉर्म में भी लोकप्रियता हासिल कर रहा है।

एमसीएक्स पर नेचुरल गैस मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट

मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) ने 14 मार्च, 2023 से नेचुरल गैस मिनी वायदा कॉन्ट्रैक्ट में कारोबार शुरू किया है। वर्तमान में अप्रैल और मई के कॉन्ट्रैक्ट क्रमशः 25 अप्रैल और 25 मई को समाप्त होने वाले कॉन्ट्रैक्ट के साथ कारोबार के लिए उपलब्ध होंगे। यह कॉन्ट्रैक्ट न्यूयॉर्क मर्केटाइल एक्सचेंज के आधार पर नकद तय किया जाएगा। इस निर्णय का उद्देश्य कमोडिटीव डेरिवेटिव बाजार में निवेशकों की व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करना है। यह छोटे व्यापारियों और ऊर्जा के निवेशकों के लिए काफी सकारात्मक है। यह भारतीय ऊर्जा बाजार के कारोबारियों को रूपये में नेचुरल गैस के मिनी कॉन्ट्रैक्टों में व्यापार करने का अवसर प्रदान करेगा जो वैश्विक बेंचमार्क से जुड़े हैं।

नेचुरल गैस मिनी वायदा के कॉन्ट्रैक्ट स्पेशिफिकेशन

सिम्बल	NATGASMINI
ट्रेडिंग यूनिट	250 एमएमबीटीयू
आधार मूल्य	रु. प्रति एमएमबीटीयू
टिक साइज	10 पैसे
अधिकतम ऑर्डर आकार	60,000 एमएमबीटीयू
निपटान तंत्र	कॉन्ट्रैक्ट का निपटान नकद में किया जाएगा
आरंभिक मार्जिन	न्यूनतम 10% या स्पैन के आधार पर, जो भी अधिक हो
अधिकतम ओपेन पोजिशन:	व्यक्तिगत ग्राहक के लिए: नेचुरल गैस के सभी कॉन्ट्रैक्टों के लिए संयुक्त रूप से एक साथ 60,00,000 एमएमबीटीयू या बाजार के ओपेन पोजिशन का 5%, जो भी अधिक हो। एक सदस्य के लिए सामूहिक रूप से सभी ग्राहकों के लिए: नेचुरल गैस के सभी कॉन्ट्रैक्टों के लिए संयुक्त रूप से एक साथ 6,00,00,000 एमएमबीटीयू या बाजार के ओपेन पोजिशन का 20%, जो भी अधिक हो।
अंतिम सेटलमेंट मूल्य	न्यूयॉर्क मर्केटाइल एक्सचेंज के अंतिम कारोबारी दिन के नेचुरल गैस के फ्रंट मंथ कॉन्ट्रैक्ट का भारतीय रूपये में अंतिम सेटलमेंट मूल्य होगा। कीमतों के रूपांतरण के लिए आरबीआई की भारतीय रूपये और डॉलर की अंतिम उपलब्ध दर का उपयोग किया जाएगा। इस प्रकार प्राप्त मूल्य को निकटतम टिक पर राउंड ऑफ किया जाएगा।
प्रतिदिन कीमतों का दायरा	एक्सचेंज ने 4% का काफी कम दायरा लागू किया है। जब भी कीमतें इस दायरे को तोड़ती हैं, तो व्यापार में बिना किसी रूकावट के दायरों को बढ़ाकर 6% तक करने की अनुमति दी जाएगी। यदि कीमतें 6% के दायरे को भी तोड़ती हैं, तो 15 मिनट की अवधि तक कारोबार को रोकने के बाद, कीमतों के दायरे को बढ़ाकर 9% तक करने की छूट दी जाएगी। यदि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मूल्य उतार-चढ़ाव अधिकतम दैनिक मूल्य सीमा (वर्तमान में 9%) से अधिक है, तो इसे 3% के चरणों में बढ़ाया जा सकता है।
गुणवत्ता स्पेशिफिकेशन	नेचुरल गैस सबाइन पाइप लाइन कंपनी के एफईआरसी द्वारा अनुमोदित टैरिफ में निर्धारित स्पेशिफिकेशन को पूरा करती है।
स्रोत: एमसीएक्स	

वैश्विक नेचुरल गैस बाजार

वैश्विक नेचुरल गैस बाजार को 2022 में एक बड़ा झटका लगा क्योंकि रूस ने यूरोप में पाइपलाइन डिलीवरी में काफी कटौती की, जिससे आपूर्ति पर अभूतपूर्व दबाव पड़ा और वैश्विक ऊर्जा संकट पैदा हो गया। इसके बावजूद, लक्षित नीतिगत उपायों, तरलीकृत नेचुरल गैस (एलएनजी) के रिकॉर्ड प्रवाह और खपत में भारी गिरावट, विशेष रूप से अधिक ऊर्जा खपत वाले क्षेत्रों में, के कारण यूरोपीय देश अपने भूमिगत गैस भंडारण स्थलों को ऐतिहासिक औसत से काफी अधिक भरने में सक्षम हुए। फिर भी, वैश्विक स्तर पर गैस बाजार का संतुलन नाजुक है और 2023 में कई अनिश्चितताएं मौजूद हैं। गैस आयात करने वाले बाजार काफी कम आपूर्ति वातावरण के कारण परेशान हैं और रूस द्वारा अधिक कटौती की आशंका चिंता का कारण है।



एसएमसी रिसर्च डेस्क

आप इस रिपोर्ट को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं- www.smctradeonline.com



Corporate Office:
11/6B, Shanti Chamber,
Pusa Road, New Delhi - 110005
Tel: +91-11-30111000
www.smcindiaonline.com

Mumbai Office:
Lotus Corporate Park, A Wing 401 / 402, 4th Floor,
Graham Firth Steel Compound, Off Western
Express Highway, Jay Coach Signal, Goreagon
(East) Mumbai - 400063
Tel: 91-22-67341600, Fax: 91-22-67341697

Kolkata Office:
18, Rabindra Sarani, Poddar Court, Gate No-4,
5th Floor, Kolkata-700001
Tel.: 033 6612 7000/033 4058 7000
Fax: 033 6612 7004/033 4058 7004

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड (जिसे एसएमसी कहा जाता है) का निम्न भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड द्वारा किया जाता है और इसे ब्रोकिंग व्यवसाय, डिपॉजिटरी सेवाएँ और संबंधित सेवाएँ करने का लाइसेंस प्राप्त है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड, एमएसईआई (मेट्रोपोलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड) का रजिस्टर्ड सदस्य है और एम/एस एसएमसी कॉम्प्लेक्स नेशनल कमोडिटी एवं डेरिवेटिव्स एक्सचेंज लिमिटेड और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया और भारत के अन्य कमोडिटी एक्सचेंजों का रजिस्टर्ड सदस्य है। इसकी सहयोगी एससीएक्स स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड की सदस्य हैं। एसएमसी सीडीएसएल (CDSL) और एनएसडीएल (NSDL) के साथ डिपॉजिटरी भागीदार के रूप में भी रजिस्टर्ड है। एसएमसी के अन्य एसोसिएट सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मंचेंट बैंकर, पोर्टफोलियो मैनेजर के रूप में रजिस्टर्ड है। यह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में एएमएफआई (AMFI) में भी रजिस्टर्ड है।

एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड सेबी (रिसर्च एनालिस्ट) रेगुलेशन 2014 के तहत रिसर्च एनालिस्ट के लिए रजिस्ट्रेशन संख्या INH100001849 के साथ रजिस्टर्ड संस्था है। एसएमसी ग्लोबल सिम्प्लिफाइड लिमिटेड या इसके सहयोगियों को सेबी द्वारा अन्य किसी रेगुलेटरी एथॉरिटी द्वारा सिम्प्लिफाइड मार्केट/कमोडिटी मार्केट में कारोबार के लिए प्रतिबंधित/निलंबित नहीं किया गया है। रिपोर्ट में रिसर्च एनालिस्टों द्वारा व्यक्त की गई राय केवल सार्वजनिक रूप से प्राप्त सूचनाओं/इंटरनेट आकड़ों/अन्य विश्वसनीय स्रोतों, जिन्हें सत्य माना जाता है, पर आधारित है। एसएमसी रिपोर्ट में व्यक्त राय या सामग्री की शुद्धता को लेकर कोई आश्वासन नहीं देता है और निवेशकों को सलाह दी जाती है कि निवेश के लिए कोई भी निर्णय करने से पहले बाजार को परिस्थितियों/जोखिमों का स्वतंत्र रूप से मूल्यांकन करें। रिसर्च एनालिस्ट, जिन्होंने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, एतद् द्वारा प्रमाणित किया जाता है कि इस रिपोर्ट में विशेष कमोडिटी के संदर्भ में व्यक्त किया गया विचार/राय उनके निजी स्वतंत्र विचार/राय हैं।

डिसक्लेमर: यह रिसर्च रिपोर्ट अधिकृत प्राप्तकर्ता को व्यक्तिगत सूचना के लिए है और इसका निवेशक को किसी निवेश, विधिक एवं कर संबंधी परामर्श से संबंध नहीं है। यह केवल प्राइवेट सल्यूशन एवं उपयोग के लिए है। यह रिपोर्ट विश्वस्त सूचनाओं पर आधारित है लेकिन यह पूरी तरह सही और पूर्ण है, ऐसा जरूरी नहीं और इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। रिपोर्ट के कन्टेन्ट के आधार पर कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। इस रिपोर्ट को एसएमसी से लिखित आज्ञा के बिना किसी भी रूप में नकल एवं किसी भी अन्य व्यक्ति को पुनः वितरण नहीं किया जाना चाहिए। इस सामग्री का कन्टेन्ट सामान्य है और यह न तो पूरी तरह से व्यापक है और न विस्तृत है। इस रिपोर्ट के आधार पर उठाने गये किसी कदम से होने वाली क्षति या नुकसान के लिए न तो एसएमसी और न इसका कोई संबंधी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी को उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। यह कोई व्यक्तिगत अनुमोदन नहीं करता या किसी खास निवेश उद्देश्य, वित्तीय स्थिति या किसी व्यक्तिगत ग्राहक या कॉर्पोरेट या सत्ता की जरूरतों को लेकर नहीं चलता है। सभी निवेश जोखिमपूर्ण होते हैं एवं पिछला प्रदर्शन भविष्य के किसी प्रदर्शन को गारंटी नहीं देता है। निवेश की वैल्यू और उससे प्राप्त आमदनी एक निश्चित समय में उपलब्ध कुछ बड़े एवं सूक्ष्म कारकों के बदलाव पर निर्भर कर सकती है। निवेश का निर्णय लेते समय किसी भी व्यक्ति को अपने विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए।

कृपया ध्यान रखें कि हम या हमारा कोई अधिकारी, सहायक, प्रतिनिधि, डॉयरेक्टर या कर्मचारी, जो भी इस रिपोर्ट को बनाने या भेजने में शामिल है उसकी (अ)समय-समय पर किसी भी कमोडिटीज में, जिनका इस रिपोर्ट में जिक्र किया गया है, खरीद या बिक्री, कोई भी पोziशन हो सकती है और वह इस कमोडिटीज को खरीद या बिक्री कर सकता है या (ब) साथ ही साथ वह इन कमोडिटीज के किसी भी प्रकार के सौचों में और ड्रॉकरेंज या अन्य प्रकार के प्रतिकर में अथवा बाजार निर्माण में शामिल हो सकता है, (स) इस रिपोर्ट में दिए गये सुझावों और संबंधित सूचनाओं एवं विचारों के संदर्भ में इनका अपना कोई भी निहित स्वार्थ या विवाद हो सकता है। सभी विवादों का निपटारा अंतिम रूप से दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीन होगा।